

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

सत्यमेव जयते

दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-24072025-264930
SG-DL-E-24072025-264930असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 209]	दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 17, 2025/आषाढ़ 26, 1947	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 134
No. 209]	DELHI, THURSDAY, JULY 17, 2025/ASHADHA 26, 1947	[N. C. T. D. No. 134

भाग IV
PART IVराष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

कार्यालय मण्डलायुक्त (राजस्व)

(समन्वय शाखा)

अधिसूचना

दिल्ली, 16 जुलाई, 2025

फा.सं. 36 (146)/ जनगणना/ मंडलायुक्त/2025/894-905.— राजस्व विभाग, दिल्ली सरकार द्वारा जारी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की अधिसूचना, संख्या एफ. 36(63)/समन्वय/विभाग.संचार/2019/1179, जो 29 जुलाई, 2019 को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित हुई थी, के स्थान पर, भारत के महापंजीयक कार्यालय, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी निम्नलिखित अधिसूचना संख्या एस.ओ. 2681(ई) दिनांक 16 जून, 2025, सामान्य जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है।

“का.आ. 2681 (अ). केंद्रीय सरकार, जनगणना अधिनियम, 1948 (1948 का 37) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत के राजपत्र असाधारण, भाग 2, खंड 3 उपखंड (आईआई) तारीख 28 मार्च, 2019 में प्रकाशित भारत सरकार के गृह मंत्रालय (भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय) की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1455

(अ) तारीख 26 मार्च, 2019 के अधिक्रमण में, उन बातों के सिवाय जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, यह घोषणा करती है कि भारत की जनसंख्या की जनगणना वर्ष 2027 के दौरान की जाएगी।

2. उक्त जनगणना के लिए संदर्भ तारीख, संघ राज्यक्षेत्र लद्दाख के और संघ राज्यक्षेत्र जम्मू-कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश एवं उत्तराखंड राज्यों के हिमाच्छादित असमकालिक क्षेत्रों के सिवाय, मार्च, 2027 के पहले दिन के 00:00 बजे होगी।

3. संघ राज्यक्षेत्र लद्दाख के लिए और संघ राज्यक्षेत्र जम्मू-कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश एवं उत्तराखंड राज्यों के हिमाच्छादित असमकालिक क्षेत्रों के लिए संदर्भ तारीख अक्टूबर, 2026 के पहले दिन के 00:00 बजे होगी।

मृत्युंजय कुमार नारायण, महारजिस्ट्रार

और जनगणना आयुक्त”

आदेश एवं उपराज्यपाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र,
दिल्ली के नाम से,
नीरज सेमवाल, सचिव-(राजस्व विभाग)

OFFICE OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER (REVENUE DEPARTMENT)

(Census Branch)

NOTIFICATION

Delhi, 16th July, 2025

F. No. 36(146)/Census/Div.Comm./2025/894-905.— In supersession of the Notification of the Government of NCT of Delhi, issued by the Revenue Department, Govt. of NCT of Delhi, notified vide No. F.36(63)/Coord./Div.comm./2019/1179, published in the Official Gazette, Government of NCT of Delhi, dated 29th July, 2019, the following Notification No. S.O. 2681(E) dated 16th June, 2025 issued by the Office of the Registrar General, India, Ministry of Home Affairs, New Delhi, is hereby published for general information.

“S.O. 2681(E). In exercise of the powers conferred by section 3 of the Census Act, 1948 (37 of 1948), and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Home Affairs (Office of the Registrar General, India) number S.O. 1455(E), dated the 26th March, 2019 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (ii), dated the 28th March, 2019, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby declares that a census of the population of India shall be taken during the year 2027.

2. The reference date for the said census shall be 00.00 hours of the 1 day of March, 2027, except for the Union territory of Ladakh and snow-bound non-synchronous areas of the Union territory of Jammu and Kashmir and the States of Himachal Pradesh and Uttarakhand.

3. In respect of the Union territory of Ladakh and snow-bound non-synchronous areas of the Union territory of Jammu and Kashmir and the States of Himachal Pradesh and Uttarakhand, the reference date shall be 00:00 hours of the 1st day of October, 2026.

MRITUNJAY KUMAR NARAYAN, Registrar General and
Census Commissioner, India

By Order and in the Name of the Lieutenant Governor of the
National Capital Territory of Delhi,
NEERAJ SEMWAL, Secy. (Revenue)